

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 122]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 1 फरवरी 2010—माघ 12, शक 1931

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 29 जनवरी 2010

आदेश

क्र. एफ. 2-20-1997-तेरह.—राज्य शासन, एतद्वारा, श्री राकेश साहनी को दिनांक 1 फरवरी 2010 से सलाहकार, ऊर्जा, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल एवं अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य विद्युत् मंडल नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. एस. परिहार, सचिव.